

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा।

पत्रांक.....1313 अनु०/मधेपुरा।

दिनांक.....०५/०५/२०२४

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मधेपुरा।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ब्राडा, पटना।

विषय :-

ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना(GTSNY) अन्तर्गत अनुरक्षण मदमें अधियाचना प्रपत्र
समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना ठे कि ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY)
अन्तर्गत अनुरक्षण मद में कराए गए कार्य का भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर मापी
पुस्त की छायाप्रति के साथ समर्पित की जाती है।

अतः अनुरोध है कि अंकित पथों में अधियाचित राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा
की जाय।

अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वासभाजन
५/५/२४

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधेपुरा।

५/५/२४

Form GFR 19- A
(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)
Form of Utilazation Certificate upto the month of 04 MAY 2024
GTSNY MAINTENANCE

| Sl. No. | Name of Scheme | Sanction No. & Date with Amount (in lacs) | Amount Received (in lacs) | Particulars |
|---------|-------------------|---|---------------------------|--|
| 1 | GTSNY Maintenance | | 4.38851 | Certified that out of RS 4.38851 lacs of grants in aid sanctioned during the Years up to 2023-24 in favour of Executive Engineer, RWD Works Division Madhepura under this Department, a sum of Rs 3.45850 lacs has been utilized for the purpose of New_ GTSNY remaining 0.93001 unutilized at the end of the period under report. |
| | | Total : | 4.38851 | |


Certified and verified myself that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kinds of Checks exercised :-

- i Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- ii Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- iii Construction material have been tested.
- iv Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- v All other codal formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- i Construction of Road works.
- ii Construction of CD works


D.A.O.
RWD works Division
Madhepura


Executive Engineer
RWD works Division
Madhepura



4/5/24

ग्रामीण टोला संपर्क योजना (GTSNY) (के लिए अनुसूचण मद की राशि से संबंधित अधियाचना प्रपत्र)

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मधेपुरा।

ग्रा

| ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रगति गणना | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| क्र० | पथ का नाम | संवेदक का नाम अंग्रेजी में) | कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि | पूर्व में उपलब्ध कराए गए राशि का व्यय विवरणी | | | | | | वर्तमान अधियाचित राशि | | | | | |
| | | | | प्रथम वर्ष(लाख में) | द्वितीय वर्ष(लाख में) | तृतीय वर्ष(लाख में) | चतुर्थ वर्ष(लाख में) | पंचम वर्ष(लाख में) | कुल(लाख में) | प्रथम वर्ष(लाख में) | द्वितीय वर्ष(लाख में) | तृतीय वर्ष(लाख में) | चतुर्थ वर्ष(लाख में) | पंचम वर्ष(लाख में) | कुल (लाख में) |
| 1 | Kumarkhand Sikiyaha Ward No-1 Navsrijit Madhya Vidyalay Main Road Se to Marraïn Patti Mahadalit Badri Risidev Ke Ghar Tak Sarak Nirman. | Rakesh Kumar | 22.09.2018 | 0.34387 | 0.41437 | 0.45842 | 0.00000 | 0.00000 | 1.21666 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.55175 | 0.63193 | 1.18368 |
| | | TOTAL | | 0.34387 | 0.41437 | 0.45842 | 0.00000 | 0.00000 | 1.21666 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.55175 | 0.63193 | 1.18368 |


 Executive Engineer
 R.W.D Works Division
 Madhepura
 05/05/24
 05/5/24

ಕುಮಾರಕುಮಾರ ಸಿಕ್ರಿಯಾ ಮಲಿನ್ ರೋಡ್ ನಾವಸೆಲಿ
ಮಾಧವಾ ಮಧರಾಲಾ 70 ಮಾರ್ಗಾಂಪಾಡಿ
Schedule XIV-Form No.-134

ಮಾಧವಾ

DIVISION

ಕುಮಾರಕುಮಾರ

~~ಕುಮಾರಕುಮಾರ~~

SUB-DIVISION

ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ

MEASUREMENT BOOK

MbNo-1246

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|----|----|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| ⑦ Cutting of shrubs from road way | | | | | |
| Qty note m BP (44) | | | | | |
| 14 nos @ Rs 6.11/ea BP ₂ | | | | | 86-00 |
| ⑧ trimming of grass and weed | | | | | |
| Qty vide m BP (45) | | | | | |
| 1181.25 m ² @ Rs 2.04/m ² | | | | | 2410-00 |
| ⑨ White washing of parapet | | | | | |
| Qty vide m BP (42) | | | | | |
| 13.36 m ² @ Rs 15.49/m ² | | | | | 206-00 |
| | | | | | Rs = 61306-00 |
| Less 10% As per Aggt. - BP ₂ | | | | | 6131-00 |
| | | | | | Rs = 55175-00 |
| Discrepancy | | | | | |
| 22/9/22 | | | | | |
| J.C | | | | | |
| 30/9/22 | | | | | |
| 22/9/22 | | | | | |
| EE | | | | | |
| 22/9/22 | | | | | |
| EE | | | | | |

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|----|------------------|
| | No. | L. | B. | D. | |
| (i) cutting of shrubs from road | | | | | |
| TEBP - 49 | 95 | 10 | 140 | | |
| (ii) Trimming of grass and weeds from the shoulders | | | | | |
| TEBP - 49 | 95 | 1965.45 | m ² | | |
| @ 2.04/m ² | | | | | ⇒ 4010.00 |
| (i) White washing for roads on parapet wall | | | | | |
| TEBP - 49 | 95 | 13.35 | m ² | | |
| @ 15.44/m ² | | | | | ⇒ 206.00 |
| | | | | | 70214.00 |
| @ less 10% below ⇒ | | | | | 7021.00 |
| | | | | | 63193.00 |
| <div style="text-align: right;"> 2311023 2311023 I.E </div> | | | | | |